

अमर उजाला

नकली स्टेरॉयड इंजेक्शन: आगरा में कर्नाटक औषधि विभाग की टीम ने ड्रग हाउस पर मारा छापा, खंगाले बिल



आगरा में नकली स्टेरॉयड इंजेक्शन के मामले में कर्नाटक बेलगाम की औषधि विभाग की टीम ने मंगलवार को फव्वारा स्थित राजू मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां टीम ने चार घंटे तक इंजेक्शन की खरीद और बिक्री के बिल खंगाले। 680 इंजेक्शन का बिल मौके पर नहीं दिखा पाए। मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस देकर सात दिन का समय दिया गया है।

औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि बेलगाम के रिद्धि फार्मा से 2600 डेकाडुराबोलिन 50 एमजी के इंजेक्शन की खरीद की। इसकी जांच की कड़ी में मंगलवार को बेलगाम के सहायक आयुक्त रघुराम के साथ दोपहर करीब डेढ़ बजे मुबारक महल फव्वारा राजू ड्रग हाउस पर जांच की।

यहां इंजेक्शन कहां से खरीदे, इनके बिल, कहां बिक्री किए। इनकी जांच की। संचालक ने 900 इंजेक्शन बीते साल जुलाई में बेलगाम की फर्म को वापस करने के बिल दिखाए, लेकिन 680 इंजेक्शन के बिल नहीं दिखा पाया। शाम करीब साढ़े पांच बजे तक जांच चलती रही, नोटिस देकर सात दिन में बिल तलब किए हैं।

कंपनी ने बताया था- नकली हैं इंजेक्शन

औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि डेकाडुराबोलिन 50 एमजी इंजेक्शन के रैपर पर जायडस कैडिला कंपनी का नाम दर्ज था। इसका नमूना लेकर कंपनी को भेजा गया, जिसमें कंपनी की ओर से ये इंजेक्शन अपने यहां निर्मित न बताकर नकली बताए थे। इस पर बीते साल 10 जून को औषधि विभाग ने राजू ड्रग हाउस के मैनेजर रंजीत शर्मा और हॉकर राहुल के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से जांच चल रही है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/karnataka-pharmaceutical-department-team-raided-the-drug-house-in-agra?pagelid=1>